

FDR

Schedule XLV-Form No. 134

RND (WD) KISHANGARU-2 **DIVISION**

POTHIA **SUB-DIVISION**

MB 510-1210
MEASUREMENT BOOK

Taigabpur Daula to Begachhi Pothia Block

प्रमाणित किया जाता है कि इस नामि पुस्तक में कुल 100
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ हैं। ज. श. स. प्रसाद
सहायक अभियंता, ग्रा. का. वि. कार्य अवर प्रमण्डल, पोथिया
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता 19/9
ग्रा. का. वि. कार्य प्रमण्डल
कृष्णगंज-2
19/9/18

Sch. XLV—Form No. 134

RWD(WD) KISHANIGANJ-2 DIVISION

POTHIA SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 1210

Name of Officer श्री श. स. प्रसाद (स. अभि. 0)

ग्रा. का. वि. कार्य अवर प्रमण्डल पोथिया

Date of first entry _____

Date of last entry _____

1st on AIC Bull

Name for work—
Situation of work—
Agency by which work is executed—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W - F.D.R. PWD In Andabuni					
PWD Teriyabbur dalua					
to Benigachh under Polka					
Block.					
Date & Entry - 05-01-2021					

(1) Coughitus b. W-SB in
mullgender de-cho

$$= 2 \times 10^{-6} \times 4 \times 10^6 \times 0.5 = 20 \text{ cm}^3$$

(2) Pulley beam cut count

21031000 under HPLib

$$ch - 4f2 - 50 = 10 - 60 = 1$$

(3) Pulser 62 mm / 75 mm dca

Darius Pules de la

$$- 65m \times 1.20 = 78.00 \text{ Rs}$$

$$-15m \times 1.10 = 16.50 \text{ m}$$

94.80 Hz

(4) After 62 min to 75 min

Bombus terrestris

Continuation

Continuati

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(5) Pulley level and pulley with Banker Baty lab					
- $2 \times 16.00 \times 5.20 \times 1.10 = 183.04 \text{ m}^3$					
(6) Pulley Banker Baty in Rural district dead					
- $2 \times 16.00 \times 4.85 \times 0.35 = 54.32 \text{ m}^3$					
(7) Pulley with cement bags with level and lab					
- $2 \times 16.00 \times 1.25 \times 1.35 = 54.00 \text{ m}^3$					
net 1907.01 cwt					

net 1589 bags

~~Up~~
6/1/21
AB

Area
5/1/21
55

Abstract of Cost

3

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
(1) Continuation of cost of					
do all other work					
Qty of stone (1) P-1				48	
2000 m ³					
Qty 2198-72/m ³				—	43978 ²⁰⁰
(2) Paving by 1 P3 1000mm					
do HP do					
Qty of stone (2) P-1				48	
1000 m ³ Qty 4781-89/m ³				—	47819 ²⁰⁰
(3) Paving 6mm to 75mm					
do by 1 P-1					
Qty of stone (3) P-1				48	
94-50 m ³ Qty 5020/m ³				—	4744 ²⁰⁰
(4) Paving 6mm to 75mm					
do by 1 P-1					
Qty of stone (4) P-1				48	
8000 m ³					
Qty 28-53/m ³				—	2282 ²⁰⁰
(5) Paving level 100mm					
do by 1 P-1					
Qty of stone (5) P-1				48	
1830 m ³					
Qty 626-89/m ³				—	114746 ²⁰⁰
				—	213569 ²⁰⁰

Continuation

P-FO.

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					BA-21356920
(6) Main Banks Bets in Road ditch dials					
O/S width 8' x 16' (6) P-2nd					
57-32m ³					
@ 2145-02m ³ — M					11651720
(7) Boundary cutting bays with land S&D dials					
O/S width 8' x 16' (7) P-2nd					
1589 bays					
@ 38-14/bays — M					60604200
					M 39069020
Azadpur CST ft/					4688320
Ank 1st kulu CST ft/					390720
Ank Singralee ft/					360020
Up 6/1/21 AB					M 44508020
					Ank
					S-1st
					50
EXECUTIVE ENGINEER RWD, WORKS DIVISION KISHANGANJ-2					

Continuation